

Bihar Specific Current Affairs: November 2021

बिहार विशिष्ट करंट अफेयर्स: नवम्बर 2021

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक

- नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के समापन समारोह के दौरान बिहार मंडप को 'सर्वश्रेष्ठ मंडप' श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
- 'आत्मनिर्भर बिहार' अभियान के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए बिहार पवेलियन ने छठा स्वर्ण पदक जीता। इसमें 'मधुबनी', 'मंजूशा', 'टेराकोटा' और 'सिक्की' जैसे प्रमुख हस्तशिल्प का लाइव डेमो दिखाया गया।
- मंडप की सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरण के अनुकूल, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद थे जिनमें भागलपुरी रेशम की साड़ियाँ, पिपली के कार्य, जूट के हस्तशिल्प सम्मिलित थे।

बिहार के मुख्यमंत्री ने बरौनी और बाढ़ में एनटीपीसी की तीन बिजली इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित किया

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की उपस्थिति में बरौनी और बाढ़ में एनटीपीसी की कुल 1160 मेगावाट क्षमता की तीन बिजली उत्पादन इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया।
- राष्ट्र को समर्पित बिजली उत्पादन इकाइयों में एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) के चरण- II की 500 मेगावाट परियोजना और बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (बीएसटीपीएस) की इकाई संख्या -1 (660 मेगावाट) हैं।

बिहार विधान परिषद पेपरलेस होने वाला देश का पहला सदन बना

- बिहार विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का उद्घाटन किया, जिससे यह देश का पहला डिजिटल हाउस बन गया है।
- केंद्र की महत्वाकांक्षी नेवा परियोजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भाग है जिसका उद्देश्य संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाना है। बिहार विधान परिषद इस दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का पहला सदन है।

एसडीजी शहरी सूचकांक: 56 यूएलबी में पटना 52 वें स्थान पर

- नीति आयोग के पहले 'सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21' में पटना को पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों में स्थान दिया गया है।
- शहर ने सूचकांक में 56 शहरों में 57.29 के समग्र स्कोर के साथ 52वां स्थान प्राप्त किया है। एसडीजी डैशबोर्ड के अनुसार, पटना को 'परफॉर्मर' श्रेणी में रखा गया है।
- आर्थिक विकास, उद्योग, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, शासन पर्यावरण और नागरिक मुद्दों से संबंधित 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया है।

अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अकादमिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने एनआईटी-पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

- विद्यार्थियों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी-पटना) में 'अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र' की स्थापना करेगा।
- केंद्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की भविष्य की प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम सहित) में अंतरिक्ष कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा।
- एनआईटी-पटना इस क्षेत्र में इसरो की अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए नोडल केंद्र होगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण '21' में बिहार 13 राज्यों में अंतिम स्थान पर

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार ने शहरी स्वच्छता के मामले में अपना "खराब" प्रदर्शन जारी रखा, जिसके परिणाम आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं।
- बिहार 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के साथ 13 राज्यों की सूची में सबसे नीचले स्थान पर था, जबकि झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) वाले 14 राज्यों में शीर्ष प्रदान किया गया है।
- पटना का प्रदर्शन भी "खराब" बना रहा क्योंकि 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले 48 शहरों में इसे 44वां स्थान प्राप्त हुआ है।

बोधगया में तितली पालन केंद्र विकसित किया गया

- गया वन प्रभाग ने बोधगया में जय प्रकाश उद्यान को तितली पालन केंद्र के रूप में विकसित किया है और 'तितली रिलीज' की सेवाएं प्रदान करके पर्यटकों और पर्यटक गाइडों के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया है।
- जय प्रकाश उद्यान विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार से संलग्न है। केंद्र तितली की प्रमुख प्रजातियों के प्रजनन को प्रोत्साहन देगा।

स्मार्ट पुलिसिंग पर आईपीएफ सर्वेक्षण 2021: बिहार सबसे कम

- दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक, आईपीएफ (इंडियन पुलिस फाउंडेशन) ने पुलिस के लिए जनता की धारणा की पहचान करने के लिए 'स्मार्ट पुलिसिंग पर आईपीएफ नागरिक संतुष्टि सर्वेक्षण, 2021' नामक एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1-10 के पैमाने पर क्रमशः 8.11 और 8.1 के उच्चतम 'स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स' स्कोर हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ने क्रमशः 5.81 और 5.74 का न्यूनतम स्कोर हासिल किया है।
- स्मार्ट पुलिसिंग का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, ताकि भारतीय पुलिस को स्मार्ट बनाया जा सके।